



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4—अगस्त 10, 2012 (श्रावण 13, 1934)

No. 31]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4—AUGUST 10, 2012 (SRAVANA 13, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2012

(थल सेना विभाग)

सं. 297, दिनांक 04 जुलाई 2012—थल सेना अनुदेश 15/79  
व उसमें जारी संशोधनों के अधीन और रक्षा मंत्रालय के पत्र  
सं. 10(3) (1)/05/डी मेड, 28 अक्टूबर 2005 यथासंशोधित के अधीन  
राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति 05 वर्ष के लिए करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

कैप्टन मुकेश नेबनानी (डीएस-12429एफ), 06 अगस्त 2011

कैप्टन नितिन यादव (डीएस-12430डब्ल्यू), 10 अगस्त 2011

कैप्टन सुश्री अमृता सिंह (डीएस-12431वाई), 16 अगस्त 2011

कैप्टन आशीष ठाकुर (डीएस-12432एफ), 17 अगस्त 2011

कैप्टन इरफान अहमद (डीएस-12433के), 23 अगस्त 2011

कैप्टन वैभव जैन (डीएस-12434एम), 24 अगस्त 2011

कैप्टन पी आर कार्थिकेयन (डीएस-12435पी), 24 अगस्त 2011

कैप्टन सन्नी भाटिया (डीएस-12436एक्स), 25 अगस्त 2011

कैप्टन कौशल कुमार सारस्वत (डीएस-12437ए), 01 सितम्बर 2011

कैप्टन एस मुरली कृष्णा (डीएस-12438एच), 02 सितम्बर 2011

कैप्टन पोटनूरु इन्द्रनील (डीएस-12439एल), 05 सितम्बर 2011

कैप्टन सुश्री करिश्मा किरण (डीएस-12440ए), 07 सितम्बर 2011

कैप्टन शुभम खन्ना (डीएस-12441एच), 10 सितम्बर 2011

कैप्टन सुश्री हामिदा बानो (डीएस-12442एल), 10 सितम्बर 2011

कैप्टन मुरली कृष्णन बी (डीएस-12443एन), 13 सितम्बर 2011

कैप्टन सुश्री समरदीप कौर (डीएस-12444डब्ल्यू), 28 सितम्बर 2011

कैप्टन सुश्री रुची हरीश (डीएस-12445वाई), 21 अक्टूबर 2011

कैप्टन सुश्री अस्वथी आर (डीएस-12446एफ), 18 नवम्बर 2011

कैप्टन मैथ्यू जैकब (डीएस-12447के), 30 नवम्बर 2011

कैप्टन सुश्री शिल्पा नायडू (डीएस-12448एम), 08 दिसम्बर 2011

विमल अरोड़ा  
मेजर जनरल  
एडीजीडीएस

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 298, दिनांक 04 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

वी के बी शर्मा को वरिष्ठ लेखा अधिकारी ग्रेड-II, ग्रुप 'ए' के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डीआरडीओ में 02 जनवरी 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 15,600--39,100/- (पीबी-3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर

अखिलेश कुमार सिंह को उप मुख्य संनिर्माण अभियंता, ग्रुप 'ए' के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डीआरडीओ में 07 जून 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड पे रु. 7,600/- पर

वी पी सिंह  
उपनिदेशक (कार्मिक-ए-2)

#### सेना सचिव शाखा

सं. 299, दिनांक 05 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

(आईसी-34021) ब्रिगे प्रमोद बहल, ग्रेन, 01 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-35796) ब्रिगे के जे सिंह, ईएमई, 23 दिसम्बर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-34341) ब्रिगे एन आर आर के बाबू, इंजी, 06 दिसम्बर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-36786) ब्रिगे जी एस लाम्बा, सिग्नल, 11 अप्रैल 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-34335) ब्रिगे पी के मंगल, इंजी, 09 दिसम्बर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-34374) ब्रिगे एस के पिल्लै, वीएसएम, सिग्नल, 23 मई 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-34379) ब्रिगे राजीव भाटिया, एएडी, 18 फरवरी 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-34460) ब्रिगे शेर सिंह, 2 एल, 28 दिसम्बर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-34544) ब्रिगे अजय सक्सेना, मैक इंफ, 08 जुलाई 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-34561) ब्रिगे पी के गोस्वामी, वीएसएम, एएडी, 22 फरवरी 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-38183) ब्रिगे गुरुमुख सिंह, वीएसएम, ईएमई, 21 जनवरी 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-37539) ब्रिगे एस एस श्रीवास्तव, ईएमई, 26 फरवरी 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-36898) ब्रिगे आर एन मसलदान, वीएसएम, इंजी, 01 जनवरी 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-36942) ब्रिगे ए के प्रधान, एसएम, 5 जीआर, 15 दिसम्बर 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-34757) ब्रिगे एन एस जमवाल, वीएसएम, 9 जीआर, 01 फरवरी 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-34758) ब्रिगे ए के राठी, एसएम, आर्टी (जीसी), 01 फरवरी 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-34762) ब्रिगे एस के वधावन, इंजी, 01 अप्रैल 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-34829) ब्रिगे संजीव तलवार, इंजी, 01 अप्रैल 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-34969) ब्रिगे जे पी सिंह, आर्मड, 01 मार्च 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जनवरी 2010 से दी जायेगी

(आईसी-38609) ब्रिगे ए के बग्गा, ईएमई, 01 जून 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जनवरी 2010 से दी जायेगी

ए चंद्रशेखर  
निर्देशक/एमएस (एक्स)

थल सेना शाखा

सं. 300, दिनांक 05 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

एयर कमोडोर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर

एम एस बेदी (एमआर-03633वाई) (14663), 18 जून 2010 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मार्च 2010 से दी जाती है

राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र खण्ड-1, भाग-4 में 05 फरवरी 2011 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना शीर्षक नियमित सेना/स्थायी कमीशन व उपशीर्षक एयर कमोडोर (व समकक्ष) से एवीएम (व समकक्ष) के पद पर ऊपर लिखे अधिकारी की पदोन्नति को रद्द करते हैं

कर्नल से बिग्रेडियर (व समकक्ष) के पद पर

डी एस भाकुनी (एमआर-04758एच), 01 दिसम्बर 2010 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 27 अक्टूबर 2010 से दी जाती है

टी के सालोपाल (एमआर-04432एम), 21 नवम्बर 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04 जनवरी 2011 से दी जाती है

अशोक सक्सेना (एमआर-04592एम), 03 अप्रैल 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 21 जनवरी 2011 से दी जाती है

के नारायणन (एमआर-05108एफ), 02 मई 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 22 जनवरी 2011 से दी जाती है

एस मिश्रा (एमआर-04870पी), 03 मई 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 14 मार्च 2011 से दी जाती है

(श्रीमती) वी दत्ता, एसएम, (एमआर-05467पी), 03 मई 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04 अप्रैल 2011 से दी जाती है

एम एस बर्थवाल (एमआर-04667वाई), 04 मई 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 11 अप्रैल 2011 से दी जाती है

अजय शर्मा (एमआर-04927वाई), 11 अगस्त 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मई 2011 से दी जाती है

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

एस के कौशिक (एमआर-06003के), 01 सितम्बर 2010 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19 अगस्त 2010 से दी जाती है

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

लेफ्टि कर्नल रमेश चंद्र (एमआर-05639वाई), 23 जून 2011

लेफ्टि कर्नल एन मोहनन (एनटीआर-16630के), 18 दिसम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल जे जे चेल्लादोरई (एमआर-05564एम), 04 अगस्त 2011

लेफ्टि कर्नल डी जयरामन, वीएसएम (एमआर-07041एम), 20 नवम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल शोभना दास (एमआर-05643एफ), 01 जनवरी 2012

लेफ्टि कर्नल बी एस बाजवा (एनटीआर-16624डब्ल्यू), 18 दिसम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल एल के गुप्ता (एमआर-06597के), 20 मई 2011

लेफ्टि कर्नल टी मंधाता (एमआर-06217ए), 06 नवम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल जी हिमाश्री (एमआर-05527वाई), 01 दिसम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल संजीव राजगोपाल (एमआर-05534पी), 01 दिसम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल एस के चौधरी (एमआर-06455एम), 28 दिसम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल डी भट्टाचार्य (एमआर-06303एल), 01 फरवरी 2012

लेफ्टि कर्नल श्रीनाथ बी आर (एनटीआर-16598ए), 18 दिसम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल तपस्वी एस आर (एनटीआर-16623एन), 18 दिसम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल पी एस खोलिया (एमआर-05591डब्ल्यू), 16 जून 2011

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) के पद पर

वी तिवारी (एमआर-05630के) (एफ-24723एल), 21 मार्च 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है

आर मदन (एमआर-06478एन) (एफ-20574एल), 21 मार्च 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 23 फरवरी 2011 से दी जाती है

अंजलि आलम (एमआर-07187ए) (एफ-23421एन), 29 अगस्त 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 23 फरवरी 2011 से दी जाती है

एस जी एस दत्ता (एमआर-06342के) (एएफ-21662आर), 28 मई 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मार्च 2011 से दी जाती है

वेंबू आनंद (एमआर-06146के) (एएफ-21500एच), 28 मई 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 20 मार्च 2011 से दी जाती है

के के यादव (एमआर-06157डब्ल्यू) (एएफ-21501एल), 28 मई 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 26 अप्रैल 2011 से दी जाती है

एस गुप्ता (एमआर-06276एम) (एएफ-22515ए), 08 नवम्बर 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 सितम्बर 2011 से दी जाती है

ए बी तिवारी (एमआर-06408पी) (एएफ-20959), 19 नवम्बर 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 15 सितम्बर 2011 से दी जाती है

ए के दास (एमआर-06343एम) (एएफ-21668एस), 19 नवम्बर 2011 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 20 सितम्बर 2011 से दी जाती है

यश पांडे  
बिग्रे

उप महानिदेशक स से चि से (मा. सं.)

स्थायी आर्मी  
मिलिट्री नर्सिंग सेवा  
स्थायी कमीशन

सं. 301, दिनांक 06 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एमएनएस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

लेफ्टि कर्नल (सेलेक्ट) से कर्नल

कर्नल सी बैश्य (एनआर-17107एल), 01 नवम्बर 2010

लेफ्टि कर्नल (टीएस) से लेफ्टि कर्नल (सेलेक्ट)

लेफ्टि कर्नल ओमना भरतन (एनआर-18157एच), 22 दिसम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल इल्लीकुट्टी के एस (एनआर-17153ए), 04 जून 2007

लेफ्टि कर्नल एलिजाबेथ अब्राहम (एनआर-17638एच), 03 अगस्त 2009

लेफ्टि कर्नल राधामनी टी के (एनआर-17668ए), 01 नवम्बर 2009

लेफ्टि कर्नल जोसफिन सुलेमान (एनआर-17822एन), 01 जुलाई 2010

लेफ्टि कर्नल टी एन सत्यभामा (एनआर-18184एम), 22 दिसम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल हेमलता शर्मा (एनआर-18144एल), 22 दिसम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल मैरी पी एम (एनआर-18145एन), 22 दिसम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल पी जी जी सुंदरी (एनआर-18173ए), 22 दिसम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल इन्दिरा कुमारी के (एनआर-17971एफ), 01 अगस्त 2011

लेफ्टि कर्नल एन यू सुजाता (एनआर-17859पी), 08 नवम्बर 2010

लेफ्टि कर्नल वल्लम्मा वर्गिस (एनआर-17969के), 01 अगस्त 2011

लेफ्टि कर्नल लीला टी एन (एनआर-18041एम), 21 नवम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल सिसली पी जे (एनआर-18111ए), 22 दिसम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल जी प्रभावती (एनआर-18254ए), 22 दिसम्बर 2011

लेफ्टि कर्नल एस वी सरस्वती (एनआर-17845पी), 01 सितम्बर 2010

लेफ्टि कर्नल मर्सी मैथ्यु ई (एनआर-17883एल), 08 अक्टूबर 2011

लेफ्टि कर्नल पी एम रमनी (एनआर-17553एम), 14 जुलाई 2008

मेजर से लेफ्टि कर्नल (टीएस)

लेफ्टि कर्नल गीता रानी (एनआर-19657एम), 12 नवम्बर 2009

कैप्टन से मेजर

मेजर गीता रानी (एनआर-19657एम), 12 नवम्बर 2001 (43 दिन की अनुपस्थिति 15 मार्च 1996 से 26 अप्रैल 1996 तक असाधारण अवकाश बिना वेतनमान व भत्ते के द्वारा नियमित की गई)

लेफ्टि से कैप्टन

कैप्टन शाइनी एस एल (एनएस-21972एफ), 14 सितम्बर 2011

कैप्टन मंजुला रानी एस (एनएस-21974एम), 14 सितम्बर 2011

कैप्टन सरिता सागर (एनएस-21975पी), 14 सितम्बर 2011

कैप्टन ज्योति रानी हुड्डा (एनएस-21976एक्स), 14 सितम्बर 2011

कैप्टन चेतन पाल (एनएस-21977ए), 14 सितम्बर 2011

कैप्टन अस्वथी बी (एनएस-21978एच), 14 सितम्बर 2011

कैप्टन अनिता ए (एनएस-21979एल), 14 सितम्बर 2011

कैप्टन विजी टी (एनएस-21980ए), 14 सितम्बर 2011

कैप्टन नवजीत कौर (एनएस-21981एच), 14 सितम्बर 2011

कैप्टन यास्मीन मलिक (एनएस-21982एल), 14 सितम्बर 2011

कैप्टन ज्योति (एनएस-21983एन), 14 सितम्बर 2011

कैप्टन जोनाली देवी (एनएस-21984डब्ल्यू), 14 सितम्बर 2011

कैप्टन एम ललिता (एनएस-21985वाई), 14 सितम्बर 2011

कैप्टन वानी एस (एनएस-21986एफ), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन प्रिया (एनएस-21987के), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन वी मोहना (एनएस-21988एम), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन ए रम्या प्रियदर्शिनी (एनएस-21989पी), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन शीना एम थॉमस (एनएस-21990के), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन अन्जु (एनएस-21991एम), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन अनु आर शशिधरन (एनएस-21992पी), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन बोदुदु ज्योस्तना देवी (एनएस-21993एक्स), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन रूचि शर्मा (एनएस-21994ए), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन दारा रूथानजेल सिनई (एनएस-21995एच), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन जी नागमणि (एनएस-21996एल), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन टी श्रीविद्यालक्ष्मी (एनएस-21997एन), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन दसारी नवनिता (एनएस-21999वाई), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन सुरेखा सोनी (एनएस-22000ए), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन कोटलनी एन कौशलया देवी (एनएस-22001एफ), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन कोमथी स्वामी जी (एनएस-22002एल), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन मानसी गोयल (एनएस-22003एन), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन श्रीदेवी काकरला (एनएस-22004डब्ल्यू), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन वडाला विजया (एनएस-22005वाई), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन ज्योति आर (एनएस-22006एफ), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन एन बानुप्रिया (एनएस-22007के), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन वनेजा केसवन (एनएस-22008एम), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन कुमदनि कुल्लु (एनएस-22009पी), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन एस अक्सा कलेमेनशिया (एनएस-22011एम), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन निलम बिष्ट (एनएस-22012पी), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन लेखा सी (एनएस-22013एक्स), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन रंजिता एन एस (एनएस-22014ए), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन राजी जॉर्ज (एनएस-22015एच), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन पूर्णिमा बी (एनएस-22016एल), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन सी कुमुदा (एनएस-22017एन), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन एम गीता रानी (एनएस-22018डब्ल्यू), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन स्मिता गुप्ता (एनएस-22019वाई), 14 सितम्बर 2011

कैप्टन उर्वशी शर्मा (एनएस-22020एन), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन विजय चंचना एस (एनएस-22021डब्ल्यू), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन अंजु मील (एनएस-22022वाई), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन अनुरिता (एनएस-22023एफ), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन राजेश कुमारी (एनएस-22024के), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन सुसी पी (एनएस-22025एम), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन नवजीत कौर (एनएस-22026पी), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन मंजरी कुमारी (एनएस-22027एक्स), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन जे एस ग्लेडसिन जेमी (एनएस-22028ए), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन पद्मजा बन्दारू (एनएस-22029एच), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन एन्सी जोस (एनएस-22030एक्स), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन एस सुमति (एनएस-22031ए), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन कोनाकोण्डला प्रियदर्शिनी (एनएस-22032एच), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन रेवती के (एनएस-22033एल), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन जी अहिलाम्बिका (एनएस-22034एन), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन मैलोडी लालेंगमवी (एनएस-22035डब्ल्यू), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन रेखा ए एस (एनएस-22036वाई), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन किरण मलिक (एनएस-22037एफ), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन दिव्याश्री पी एस (एनएस-22038के), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन के सुब्बुलक्ष्मी (एनएस-22039एम), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन पल्ला एस पी देवी (एनएस-22040एफ), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन एस चित्रा (एनएस-22041के), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन प्रसिता नायर (एनएस-22042एम), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन थिंगोम बिद्या देवी (एनएस-22043पी), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन अमृता छत्तर (एनएस-22044एक्स), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन रेनु राठौर (एनएस-22045ए), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन सुगुनम्मा अप्पा (एनएस-22046एच), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन डी एच एन्जला (एनएस-22047एल), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन दिव्या एस कुरूप (एनएस-22048एन), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन स्वीटी ल्यूक (एनएस-22049डब्ल्यू), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन नेहा कुमारी सेठी (एनएस-22050एल), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन मैरी एन्जल ए ए (एनएस-22051एन), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन राज्यलक्ष्मी काकुमनी (एनएस-22052डब्ल्यू), 14 सितम्बर 2011

कैप्टन पी बिनाक्का (एनएस-22053वाई), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन राजेश्वरी कारुमान्ची (एनएस-22054एफ), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन आर रम्या (एनएस-22055के), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन दलजीत कौर (एनएस-22056एम), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन लिजी चेरियन (एनएस-22057पी), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन रितुमोनी डेका (एनएस-22058एक्स), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन स्वर्णा कुमारी ओगीरला (एनएस-22059ए), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन टी ग्रेसी अबिगैल (एनएस-22060पी), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन प्रियंका प्रियदर्शिनी पलता (एनएस-22061एक्स), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन ए सुमति (एनएस-22062ए), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन येंगरखोम आनंदी चानू (एनएस-22063एच), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन डी रूथविनय शीला (एनएस-22064एल), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन वाईखोम रेनुता देवी (एनएस-22065एन), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन फरहा अंजुम (एनएस-22066डब्ल्यू), 14 सितम्बर 2011  
 कैप्टन अल्का (एनएस-22067वाई), 14 सितम्बर 2011

जे के ग्रेवाल  
 मेजर जनरल  
 अतिरिक्त महानिदेशक  
 एम एन एस

#### थल सेना विभाग

सं. 302, दिनांक 6 जुलाई 2012--थल सेना अनुदेश 37/38 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना  
 सैनिक दन्त चिकित्सा कोर  
 (स्थायी कमीशन)

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

लेफ्टि कर्नल अरूण खुर्मा (डीआर-10403एन), 14 अक्टूबर 2011

लेफ्टि कर्नल तरूण कुमार (डीआर-10408एम), 29 नवम्बर 2011

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमाण्डर के पद पर

बीजू वर्गीस (डीआर-10567के) (एफ-25567), आईएफएफ,  
 26 अगस्त 2010

प्रिया जैराज (डीआर-10454एफ) (एफ-22507), 15 अप्रैल 2005

(दिनांक 05 अप्रैल 2008 को प्रकाशित इस अधिकारी से सम्बन्धित राजपत्र अधिसूचना को निरस्त समझा जाए)

सार्जेंट लेफ्टि से सार्जेंट लेफ्टि कमाण्डर के पद पर

कपिल तोमर (डीआर-10625एच), 06 सितम्बर 2010

कैप्टन से मेजर के पद पर

अमृत थापा (डीआर-10645डब्ल्यू), 01 अगस्त 2011

विश्वरूप (डीआर-10652एम), 15 अगस्त 2011

ए नवीन कुमार (डीआर-10646वाई), 21 सितम्बर 2011

#### थल सेना विभाग

थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

#### नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर  
 (अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन से मेजर के पद पर

अनुरूप प्रकाश (डीएस-12245एच), 04 नवम्बर 2011

प्रियंका बंगा (डीएस-12246एल), 10 नवम्बर 2011

चिनमोची राऊट (डीएस-12247एन), 10 नवम्बर 2011

इन्फेन्ट आरोक्य राज (डीएस-12369एक्स), 04 मार्च 2011

पंकज अरोड़ा (डीएस-12235वाई), 17 सितम्बर 2011

गौरव (डीएस-12237के), 22 सितम्बर 2011

(सुश्री) सम्भूति अरोड़ा (डीएस-12238एम), 22 सितम्बर 2011

विमल अरोड़ा  
 मेजर जनरल  
 एडीजीडीएस

#### सेना शाखा

सं. 303, दिनांक 9 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

#### नियमित सेना

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एससी)

लेफ्टि से कप्तान

(एससी-00595) अनिल दत्त जोशी, एसओसी

(एससी-00596) प्रीतम सिंह, एसएससी

(एससी-00597) रमन कुमार, इन्फैन्ट्री

(एससी-00598) दिनेश सिंह थापा, इन्फैन्ट्री

(एससी-00599) अनिल कुमार, सिग्नल्स

(एससी-00600) रामकाजी गुरुंग, इन्फैन्ट्री  
 (एससी-00601) रोहताश सिंह, एसी  
 (एससी-00602) भाजराज, ईएमई  
 (एससी-00603) प्रवीन कुमार वनजारे, ईएमई  
 (एससी-00604) विजय गुरुंग, इन्फैन्ट्री  
 (एससी-00605) संजय सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (एससी-00606) लक्ष्मण सिंह बिष्ट, इंजीनियर्स  
 (एससी-00607) मनोज कुमार गुप्ता, आर्टी  
 (एससी-00608) अनिल माने, इंजीनियर्स  
 (एससी-00609) रेथीश जी वी, एएडी  
 (एससी-00610) विनू पी, आर्टी  
 (एससी-00611) विमल राज एस, आर्टी  
 (एससी-00612) अजय चौहान, मैक इन्फैन्ट्री

-----12 दिसम्बर 2011

प्रभात रॉस  
 उप निदेशक  
 एमएस 8सी

-----

सं. 304, दिनांक 9 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) वाघेला सुर सिंह भुपत सिंह (सं. 14918165एन अब जेसी-422103एम), 02 जनवरी 2012 \*

\*[नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है]

हवलदार (लिपिक) ब्रजेश कुमार पाल (सं. 14916534एफ अब जेसी-422104पी), 04 जनवरी 2012 \*

\*[नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है]

हवलदार (लिपिक) संजय कुमार सिंह (सं. 14927933एक्स अब जेसी-422105एक्स), 05 जनवरी 2012 \*

\*[नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है]

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार (एसकेटी) वी संधाना मुथु (सं. 14918476एफ अब जेसी-422106ए), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटी) उदया भानु एम (सं. 14918845एन अब जेसी-422107एच), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटी) सुखा राम (सं. 14919842एम अब जेसी-422108एल), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटी) अवनीश कुमार मिश्रा (सं. 14920806एन अब जेसी-422109एन), 27 जनवरी 2012 \*

\*[नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है]

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

डिफेंस सिविलियन

हैड क्वार्टर ए सी सी एण्ड एस, अहमदनगर

निजी सचिव ग्रुप बी के रैंक में

नं. 1091787 आशुलिपिक श्रेणी-1 सर्जें राव रंगनाथ मुनफान, 01 मार्च 2009 से प्रभावित रु. 9,300-34,800/- के वेतनमान और 4,600/- रु. ग्रेड पे में निजी सचिव ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारी (अनुसचिवीय) के पद पर प्रोन्नति की गयी है :--

नियमित सेना

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार श्री कुमार जी (सं. 15468729पी अब जेसी-245553एम), 03 फरवरी 2012 \*

\*[नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है]

दफादार उतपाल घोष (सं. 15463831एन अब जेसी-245644डब्ल्यू), 10 फरवरी 2012

दफादार आशीष कुमार सिंह (सं. 15461598एम अब जेसी-245645वाई) 10 फरवरी 2012 \*

दफादार विजय कुमार (सं. 15464135एच अब जेसी-245654ए), 07 मार्च 2012 \*

\*[नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है]

दफादार भंवर सिंह राठौड़ (सं. 15463280एन अब जेसी-245563डब्ल्यू), 12 जनवरी 2012 \*

\*[नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है]

दफादार सुखविन्दर सिंह (सं. 15469690ए अब जेसी-245664के), 02 मार्च 2012 \*

\*[नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है]

दफादार रामअवतार सिंह राजपूत (सं. 15465316ए अब जेसी-245665एम), 01 मार्च 2012

दफादार स्वरन सिंह (सं. 15469685पी अब जेसी-245663एफ), 01 मार्च 2012

दफादार कमल देव प्रसाद (सं. 1099651एम अब जेसी-245699ए), 15 मार्च 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

दफादार पेदादा गोविंदा राव (सं. 1089739एच अब जेसी-245635पी), 02 अप्रैल 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

दफादार यशबीर चन्दर (सं. 1089390डब्ल्यू अब जेसी-245637ए), 01 अप्रैल 2012

दफादार बलदेव सिंह ठाकुर (सं. 15461150एम अब जेसी-245603एम), 01 अप्रैल 2012

दफादार भुपेन्द्र सिंह अलमिया (सं. 15464518पी अब जेसी-245752ए), 01 अप्रैल 2012

दफादार सञ्जन सिंह (सं. 15463415के अब जेसी-245609एन), 02 अप्रैल 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

दफादार रविंदर कुमार (सं. 15462265एम अब जेसी-245632एफ), 01 अप्रैल 2012

दफादार सुब्रता दत्ता (सं. 15462392एफ अब जेसी-245633के), 01 अप्रैल 2012

दफादार कमल कुमार गुप्ता (सं. 15465461एक्स अब जेसी-245661डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2012

दफादार शिव शंकर (सं. 15464063के अब जेसी-245677एफ), 01 अप्रैल 2012

दफादार जायापमाली नाथ शरनप्पा (सं. 15461189वाई अब जेसी-245705एच), 03 अप्रैल 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार विजय श्याम सिंह (सं. 15461939एम अब जेसी-245717एक्स), 22 मार्च 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार तरसेम सिंह (सं. 15465553के अब जेसी-245672एच), 02 अप्रैल 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

दफादार ईजाज नबी (सं. 15461874के अब जेसी-245690एल), 01 अप्रैल 2012

दफादार हरीष चंद यादव (सं. 15462434एच अब जेसी-245691एन), 02 अप्रैल 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

दफादार मनोज कुमार बी (सं. 15462447ए अब जेसी-245692डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

दफादार दशरथ सिंह शेखावत (सं. 15461977एच अब जेसी-245707एन), 01 अप्रैल 2012

दफादार कंवल जीत सिंह (सं. 15463568एन अब जेसी-245710एल), 01 अप्रैल 2012

दफादार प्रोतीम मुखर्जी (सं. 15463053एन अब जेसी-245739डब्ल्यू), 03 अप्रैल 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

दफादार सुरजीत कुमार (सं. 15464171एन अब जेसी-245725डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

दफादार भोला नाथ (सं. 15464666ए अब जेसी-245726वाई), 02 अप्रैल 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

दफादार भगवान सिंह (सं. 15466738एक्स अब जेसी-245729एम), 01 अप्रैल 2012

दफादार शैलेन्द्र कुमार आजाद (सं. 15466739ए अब जेसी-245730एफ), 01 अप्रैल 2012

दफादार बलजीत सिंह (सं. 15462346एम अब जेसी-245734एक्स), 03 अप्रैल 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मार्च 2012 से दी जाती है)

दफादार सुप्रिया बनर्जी (सं. 15463394एक्स अब जेसी-245740एल), 04 अप्रैल 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

दफादार साई प्रसाद पात्रा (सं. 15466043पी अब जेसी-245745के), 09 अप्रैल 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मार्च 2012 से दी जाती है)

दफादार राकेश कुमार सिंह (सं. 15465872डब्ल्यू अब जेसी-245744एफ), 04 अप्रैल 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार सुशंता कुमार दास (सं. 15466101एन अब जेसी-245746एम), 04 अप्रैल 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

दफादार रामानंद (सं. 15463183डब्ल्यू अब जेसी-245750पी), 03 अप्रैल 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मार्च 2012 से दी जाती है)

दफादार बलजीर सिंह (सं. 1098890पी अब जेसी-245756डब्ल्यू), 09 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

सुभद्रत करमाकर  
अवर सचिव

वायु सेना

सं. 305, दिनांक 10 जुलाई 2012--माननीय राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

फ्लाइट लेफ्टि से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक पर

स्थायी कमीशन

आई(एम) शाखा

जयाप्रकाश (27940), 05 जून 2008 से प्रभावी

तरुण खरे  
विंग कमांडर  
संयुक्त निदेशक  
कार्मिक अफसर-3(डी)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 306, दिनांक 10 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

एस बी काले, लेखा अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 25 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

टी ज्योति को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 23 अप्रैल 2012 (मध्याह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

टी सुलोचना, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 21 नवम्बर 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

श्याम पी अकोलकर, को हिन्दी अधिकारी, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 02 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 15,600--39,100/- (पीबी-3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर

पी राम रेड्डी को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 27 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

एस आई सोमन सीकर को असैनिक सहायक सुरक्षा अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 11 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

डी ए श्रीनिवास को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 24 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

के एन मुपिड, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 21 जनवरी 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

साइमन के वर्गीस को अस्थायी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 02 जनवरी 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड 3 रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर

जे जे शिंदे, निजी सचिव 'ए', ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 02 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

एस रमन, निजी सचिव 'ए', ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 02 जनवरी 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

एस जमुना रानी, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 01 मार्च 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

शैला के, लेखा अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 02 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

के एस रामाकृष्णा, लेखा अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 03 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

राकेश जलानी, लेखा अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 09 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

ए बी इनामदार, निजी सचिव 'ए', ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 02 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

के भानु, लेखा अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 03 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

कस्तूरी रॉय, निजी सचिव 'ए', ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 01 मार्च 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

बी पी सिंह

उपनिदेशक (कार्मिक एए2)

सेना शाखा

सं. 307, दिनांक 11 जुलाई 2012--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से त्याग पत्र देने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

(आईसी-61539) मेजर रवि नवीन, इन्फैन्ट्री, 19 नवम्बर 2008 (अप)

(आईसी-67741) मेजर रविन्द्र सिंह, इन्जीनियर्स, 19 दिसम्बर 2011 (पूर्वा)

(आईसी-63324) मेजर गौरव खरे, इन्जीनियर्स, 14 फरवरी 2012 (अप)

वन्दना दुबे  
उप निदेशक  
एमएस/पीआर

(वित्त प्रभाग)

सं. 308, दिनांक 11 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त) के अपर वित्तीय सलाहकार (आर) एवं संयुक्त सचिव रमेश कुमार की अधिवर्षिता की आयु होने पर उन्हें दिनांक 31 मई 2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

रवि कत्याल  
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

सेना शाखा

सं. 309, दिनांक 12 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवा निवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

(आईसी-38402) कर्नल भवानी सिंह, एसी, 15 सितम्बर 2006 (अप)

(आईसी-41627) कर्नल (टी एस) विनय आशीष जॉन सिंह, इन्जीनियर्स, 17 दिसम्बर 2011 (अप)

(आईसी-50678) कर्नल रविशंकर विरनाथ घोड़के, इन्जीनियर्स, 29 दिसम्बर 2012 (अप)

(आईसी-43268) कर्नल दलाल सन्जीव, इन्जीनियर्स, 08 फरवरी 2012 (अप)

(आईसी-49514) कर्नल अजय कुमार अरोरा, सिग्नल्स, 11 फरवरी 2012 (अप)

(आईसी-47605) कर्नल संजय जुल्का, आर्टी, 28 जनवरी 2012 (अप)

(आईसी-45313) कर्नल (टी एस) अमरबीर सिंह चहल, एसी, 22 जनवरी 2012 (अप)

(आईसी-45294) कर्नल (टी एस) आनन्द सोन्टके, एसी, 14 फरवरी 2012 (अप)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा उनको अधिकारियों के नियमित आरक्षी कोटे (क्लास X) के आधीन एस ए आई 10/S/63 यथा संशोधित में स्थानांतरित करते हैं:--

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

(आईसी-52803) मेजर अजित सिंह, इन्फैन्ट्री, 20 मई 2007 (अप)

(आईसी-49492) ले कर्नल रवि राधाकृष्णन, इन्फैन्ट्री, 17 मार्च 2007 (अप)

(आईसी-45589) ले कर्नल राजेश सेठ, इन्फैन्ट्री, 21 अगस्त 2007 (अप)

(आईसी-43805) ले कर्नल अतुल कोच्चर, इन्फैन्ट्री, 01 जुलाई 2008 (अप)

(आईसी-45182) ले कर्नल सुरेश चन्देर मन्न, इन्फैन्ट्री, 09 फरवरी 2008 (अप)

(आईसी-45682) ले कर्नल सौगतो दास, मैक इन्फैन्ट्री, 15 जनवरी 2008 (अप)

(आईसी-50477) ले कर्नल कुलवन्त कटारिया, एस एम इन्फैन्ट्री,  
18 जनवरी 2012 (अप)

(आईसी-47174) ले कर्नल निकुन्ज गोयल, मैक इन्फैन्ट्री,  
18 जनवरी 2012 (अप)

(आईसी-47736) ले कर्नल राजीव मिस्त्रा, आर्टी, 08 फरवरी 2012 (अप)

(आईसी-50166) ले कर्नल एन एस बहच्चल, ई एम ई, 08 फरवरी  
2012 (अप)

(आईसी-44148) ले कर्नल सन्दीप सभरवाल, ई एम ई, 14 फरवरी  
2012 (अप)

(आईसी-52918) ले कर्नल विनोद सी एच, आर्टी, 01 मार्च 2012 (पूर्वा)

(आईसी-46460) ले कर्नल मितुल गोयल, आर्टी, 10 मार्च 2012 (अप)

(आईसी-50576) ले कर्नल नीरज शर्मा, ई एम ई, 09 मार्च 2012 (अप)

वन्दना दुबे  
उप निदेशक  
एमएस/पीआर

सेना शाखा

सं. 310, दिनांक 12 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
अधिकारी को अधिवर्षिता की आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्त होने  
की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
(सेना चिकित्सा कोर)

ग्रुप कैप्टन (टीएस) आर के भूटानी, (एमआर-03756एल)  
(एएफ-13757बी), पीसी, 30 अप्रैल 2007

ग्रुप कैप्टन (टीएस) एम जी अजमानी, (एमआर-04468एल)  
(एएफ-13756टी), पीसी, 31 जनवरी 2007

यश पांडे  
ब्रिगे  
उप महानिदेशक (मा सं)

थल सेना शाखा

सं. 311, दिनांक 13 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
अधिकारी को नीचे दी गई तारीख से पदच्युत करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
(सेना चिकित्सा कोर)

(एमआर-03527ए) ब्रिगे अनिल कायस्थ, एमएम, पीसी,  
30 जुलाई 2011

यश पांडे  
ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसेनि (मा.सं.)

सेना शाखा

सं. 312, दिनांक 13 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों  
की उनके नाम के आगे दी गई तारीख से सेना नियम 1950 के अधीन  
धारा 19 के अन्तर्गत, सेवा समाप्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन

(आईसी-50123) लेफ्टिनेंट के आई एस रन्धावा, ए ओ सी,  
15 फरवरी 2007

वन्दना दुबे  
उप निदेशक  
एमएस/पीआर

सेना शाखा

सं. 313, दिनांक 16 जुलाई 2012--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की  
सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

शुद्धि पत्र

भारत सरकार के राजपत्र में रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 617  
दिनांक 22 दिसम्बर 2007 को प्रकाशित किया गया है के निम्नलिखित  
शीर्षक सेना के स्थाई आयोग (विशेष सूची) में शुद्धि इस प्रकार की जाती  
है :--

के स्थान पर हवलदार सिरसथ मचिन्द्रा राधाकिसन  
जेसी-14408755डब्ल्यू (एस एल-4925एन), आर्टी,  
टीईओ (आर्टी)  
पढ़ा जाए हवलदार सिरसथ मचिन्द्रा राधाकिसन  
जेसी-14408755डब्ल्यू (एस एल-4925 एन), आर्टी,  
टीईओ (आर्टी)

राहुल सांगवान  
ले कर्नल  
एमएस-8बी

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th August 2012

## ARMY BRANCH

No. 297, dated 4th July 2012—The President is pleased to make the following appointment for a period of 05 years under 15/79, as amended and GoI MoD letter Nos. 10(3)(1)/05/D(Med) dated 28 Oct 2005 as amended :—

## REGULAR ARMY

## ARMY DENTAL CORPS

## SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (On Probation)

Capt Mukesh Nebhnani (DS-12429F), 06 Aug 2011  
 Capt Nitin Yadav (DS-12430W), 10 Aug 2011  
 Capt Amrita Singh (DS-12431Y), 16 Aug 2011  
 Capt Ashish Thakur (DS-12432F), 17 Aug 2011  
 Capt Irfan Ahmad (DS-12433K), 23 Aug 2011  
 Capt Vaibhav Jain (DS-12434M), 24 Aug 2011  
 Capt PR Karthikeyan (DS-12435P), 24 Aug 2011  
 Capt Sunny Bhatia (DS-12436X), 25 Aug 2011  
 Capt Kaushal Kumar Saraswat (DS-12437A), 01 Sep 2011  
 Capt S Murali Krishna (DS-12438H), 02 Sep 2011  
 Capt Potnuru Indraneel (DS-12439L), 05 Sep 2011  
 Capt Karishma Kiran (DS-12440A), 07 Sep 2011  
 Capt Shubham Khanna (DS-12441H), 10 Sep 2011  
 Capt Hamida Bano (DS-12442L), 10 Sep 2011  
 Capt Murali Krishnan B (DS-12443N), 13 Sep 2011  
 Capt Summerdeep Kaur (DS-12444W), 28 Sep 2011  
 Capt Ruchi Harish (DS-12445Y), 21 Oct 2011  
 Capt Aswathi R (DS-12446F), 18 Nov 2011  
 Capt Shiju Mathew Jacob (DS-12447K), 30 Nov 2011  
 Capt Shilpa Nayudu (DS-12448M), 08 Dec 2011

VIMAL ARORA  
 Maj Gen  
 Addl DGDS

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION

No. 298, dated 4th July 2012—The President is pleased to make the following appointment :—

V K B Sarma to be Senior Accounts Officer Grade-II, Gp 'A' on probation for two years in DRDO with effect from

02 Jan 2012 (F/N) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) and Grade Pay of Rs. 5,400/-

Akhilesh Kumar Singh to be Dy Chief Construction Engineer, Gp 'A' on probation for one year in DRDO with effect from 07 Jun 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 7,600/-

V P SINGH  
 Dy Dir (Pers)

## ARMY BRANCH

No. 299, dated 5th July 2012—The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following officers :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

To be Subs Maj Gen

(IC-34021) Brig Pramod Behl, Gren, 01 Jul 2010 with seniority from 01 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-35796) Brig K J Singh, EME, 23 Dec 2010 with seniority from 01 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-34341) Brig N R R K Babu, Engrs, 06 Dec 2010 with seniority from 01 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-36786) Brig G S Lamba, Sigs, 11 Apr 2011 with seniority from 02 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-34335) Brig P K Mangal, Engrs, 09 Dec 2010 with seniority from 02 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-34374) Brig S K Pillai, VSM, Sigs, 23 May 2011 with seniority from 03 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-34379) Brig Rajiv Bhatia, AAD, 18 Feb 2011 with seniority from 03 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-34460) Brig Sher Singh, 2 L, 28 Dec 2010 with seniority from 05 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-34544) Brig Ajay Saxena, Mech Inf, 08 Jul 2011 with seniority from 06 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-34561) Brig P K Goswami, VSM, AAD, 22 Feb 2011 with seniority from 06 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-38183) Brig Gurmukh Singh, VSM, EME, 21 Jan 2011 with seniority from 06 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-37539) Brig S S Srivastava, EME, 26 Feb 2011 with seniority from 06 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-36898) Brig R N Masaldan, VSM, Engrs, 01 Jan 2011 with seniority from 07 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-36942) Brig A K Pradhan, SM, 5 GR, 15 Dec 2011 with seniority from 07 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-34757) Brig N S Jamwal, VSM, 9 GR, 01 Feb 2011 with seniority from 07 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-34758) Brig A K Rathee, SM, Arty (GC), 01 Feb 2011 with seniority from 07 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-34762) Brig S K Wadhawan, Engrs, 01 Apr 2011 with seniority from 08 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-34829) Brig Sanjiv Talwar, Engrs, 01 Apr 2011 with seniority from 08 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-34969) Brig J P Singh, Armd, 01 Mar 2011 with seniority from 10 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-38609) Brig A K Bagga, EME, 01 Jun 2011 with seniority from 10 Jan 2010 without effect on pay and pension

A CHANDRASEKHAR  
Dir/MS (X)

#### ARMY BRANCH

No. 300, dated 5th July 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### (ARMY MEDICAL CORPS)

Air Cmde to be Maj Gen (& equivalent)

M S Bedi (MR-03633Y)(14663), 18 Jun 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Mar 2010

The Ministry of Defence Gazette Notification published in Part I Section-4 of the Gazette of India on 05 Feb 2011 under the heading Regular Army/Permanent Commission and Sub Heading Air Cmde (& equivalent) to be AVM (& equivalent) in respect of the above named officer may be treated as cancelled

Col to be Brig (& equivalent)

D S Bhakuni (MR-04758H), 01 Dec 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 27 Oct 2010

T K Salopal (MR-04432M), 21 Nov 2011 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Jan 2011

Ashok Saxena (MR-04592M), 03 Apr 2011 with notional seniority without effect on pay & pension from 21 Jan 2011

K Narayanan (MR-05108F), 02 May 2011 with notional seniority without effect on pay & pension from 22 Jan 2011

S Misra (MR-04870P), 03 May 2011 with notional seniority without effect on pay & pension from 14 Mar 2011

V Dutta, SM (MR-05467P), 03 May 2011 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Apr 2011

M S Barthwal (MR-04667Y), 04 May 2011 with notional seniority without effect on pay & pension from 11 Apr 2011

Ajay Sharma (MR-04927Y), 11 Aug 2011 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 May 2011

Lt Col to be Col (& equivalent)

S K Kaushik (MR-06003K), 01 Sep 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 19 Aug 2010

Lt Col to Col (Time Scale)

Lt Col Ramesh Chandra (MR-05639Y), 23 Jun 2011

Lt Col N Mohanan (NTR-16630K), 18 Dec 2011

Lt Col J J Chelladorai (MR-05564M), 04 Aug 2011

Lt Col D Jayaraman, VSM (MR-07041M), 20 Nov 2011

Lt Col Shobhana Das (MR-05643F), 01 Jan 2012

Lt Col B S Bajwa (NTR-16624W), 18 Dec 2011

Lt Col L K Gupta (MR-06597K), 20 May 2011

Lt Col T Mandhata (MR-06217A), 06 Nov 2011

Lt Col G Himashree (MR-05527Y), 01 Dec 2011

Lt Col Sanjiv Rajagopal (MR-05534P), 01 Dec 2011

Lt Col S K Chaudhury (MR-06455M), 28 Dec 2011

Lt Col D Bhattacharyya (MR-06303L), 01 Feb 2012

Lt Col Srinath B R (NTR-16598A), 18 Dec 2011

Lt Col Tapaswi S R (NTR-16623N), 18 Dec 2011

Lt Col P S Kholia (MR-05591W), 16 Jun 2011

Wg Cdr to be Gp Capt (& equivalent)

V Tewari (MR-05630K) (AF-24723L), 21 Mar 2011 with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Jan 2011

R Madan (MR-06478N) (AF-20574L), 21 Mar 2011 with notional seniority without effect on pay and pension from 23 Feb 2011

Anjali Alam (MR-07187A) (AF-23421N), 29 Aug 2011 with notional seniority without effect on pay and pension from 23 Feb 2011

S G S Datta (MR-06342K) (AF-21662R), 28 May 2011 with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Mar 2011

Vembu Anand (MR-06146K) (AF-21500H), 28 May 2011 with notional seniority without effect on pay and pension from 20 Mar 2011

K K Yadav (MR-06157W) (AF-21501L), 28 May 2011 with notional seniority without effect on pay and pension from 26 Apr 2011

S Gupta (MR-06276M) (AF-22515A), 08 Nov 2011 with notional seniority without effect on pay and pension from 02 Sep 2011

A B Tiwari (MR-06408P) (AF-20959), 19 Nov 2011 with notional seniority without effect on pay and pension from 15 Sep 2011

A K Dash (MR-06343M) (AF-21668S), 19 Nov 2011 with notional seniority without effect on pay and pension from 20 Sep 2011

YASH PANDE  
Brig  
Dy DGAFMS (HR)

No. 301, dated 6th July 2012—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against each name :—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

Lt Col (Select) to Col

Col C Baisya (NR-17107L), 01 Nov 2010

Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

Lt Col Omana Bharathan (NR-18157H), 22 Dec 2011

Lt Col Ealikutty K S (NR-17153A), 04 Jun 2007

Lt Col Elizabeth Abraham (NR-17638H), 03 Aug 2009

Lt Col Radhamony T K (NR-17668A), 01 Nov 2009

Lt Col Josephine Suleman (NR-17822N), 01 Jul 2010

Lt Col T N Sathyabhama (NR-18184M), 22 Dec 2011

Lt Col Hemlata Sharma (NR-18144L), 22 Dec 2011

Lt Col Mary P M (NR-18145N), 22 Dec 2011

Lt Col P G G Sundari (NR-18173A), 22 Dec 2011

Lt Col Indira Kumari K (NR-17971F), 01 Aug 2011

Lt Col N U Sujatha (NR-17859P), 08 Nov 2010

Lt Col Valsamma Varghese (NR-17969K), 01 Aug 2011

Lt Col Leela T N (NR-18041M), 21 Nov 2011

Lt Col Cecily P J (NR-18111A), 22 Dec 2011

Lt Col G Prabhavati (NR-18254A), 22 Dec 2011

Lt Col S V Saraswati (NR-17845P), 01 Sep 2010

Lt Col Mercy Mathew E (NR-17883L), 08 Oct 2011

Lt Col P M Ramani (NR-17553M), 14 Jul 2008

Maj to Lt Col (TS)

Lt Col Geeta Rani (NR-19657M), 12 Nov 2009

Capt to Maj

Maj Geeta Rani (NR-19657M), 12 Nov 2001 (DOC : 30 Sep 1989, 43 days of absence from 15 Mar 1996 to 26 Apr 1996 regularised with EOL without pay & allowances)

Lt to Capt

Capt Shini SL (NS-21972F), 14 Sep 2011

Capt Manjula Rani S (NS-21974M), 14 Sep 2011

Capt Sarita Sagar (NS-21975P), 14 Sep 2011

Capt Jyoti Rani Hooda (NS-21976X), 14 Sep 2011

Capt Chetan Pal (NS-21977A), 14 Sep 2011

Capt Aswathi B (NS-21978H), 14 Sep 2011

Capt Anitha A (NS-21979L), 14 Sep 2011

Capt Viji T (NS-21980A), 14 Sep 2011

Capt Navjeet Kaur (NS-21981H), 14 Sep 2011

Capt Yasmin Malik (NS-21982L), 14 Sep 2011

Capt Jyoti (NS-21983N), 14 Sep 2011

Capt Jonali Devi (NS-21984W), 14 Sep 2011

Capt M Lalitha (NS-21985Y), 14 Sep 2011

Capt Vani S (NS-21986F), 14 Sep 2011

Capt Priya (NS-21987K), 14 Sep 2011

Capt V Mohana (NS-21988M), 14 Sep 2011

Capt A Ramya Priyadarsini (NS-21989P), 14 Sep 2011

Capt Sheena M Thomas (NS-21990K), 14 Sep 2011

Capt Anju (NS-21991M), 14 Sep 2011

Capt Anu R Sasidharan (NS-21992P), 14 Sep 2011

Capt Boddu Jyosthsna Devi (NS-21993X), 14 Sep 2011

Capt Ruchi Sharma (NS-21994A), 14 Sep 2011

Capt Dara Ruthangel Sinai (NS-21995H), 14 Sep 2011

Capt G Nagamani (NS-21996L), 14 Sep 2011

Capt T Srividyalakshmi (NS-21997N), 14 Sep 2011

Capt Dasari Navaneetha (NS-21999Y), 14 Sep 2011

Capt Surekha Soni (NS-22000A), 14 Sep 2011

Capt Kotlani N Kousalya Devi (NS-22001F), 14 Sep 2011

Capt Komathi Swamy G (NS-22002L), 14 Sep 2011

Capt Mansi Goel (NS-22003N), 14 Sep 2011

Capt Sridevi Kakarla (NS-22004W), 14 Sep 2011

Capt Vadala Vijaya (NS-22005Y), 14 Sep 2011  
 Capt Jyoti R (NS-22006F), 14 Sep 2011  
 Capt N Banu Priya (NS-22007K), 14 Sep 2011  
 Capt Vaneja Kesawan (NS-22008M), 14 Sep 2011  
 Capt Kumudini Kullu (NS-22009P), 14 Sep 2011  
 Capt S Aksa Clementia (NS-22011M), 14 Sep 2011  
 Capt Neelam Bisht (NS-22012P), 14 Sep 2011  
 Capt Lekha C (NS-22013X), 14 Sep 2011  
 Capt Ranjitha NS (NS-22014A), 14 Sep 2011  
 Capt Rajee George (NS-22015H), 14 Sep 2011  
 Capt Poornima B (NS-22016L), 14 Sep 2011  
 Capt C Kumudha (NS-22017N), 14 Sep 2011  
 Capt M Geetha Rani (NS-22018W), 14 Sep 2011  
 Capt Smita Gupta (NS-22019Y), 14 Sep 2011  
 Capt Urvashi Sharma (NS-22020N), 14 Sep 2011  
 Capt Vijay Chanchana S (NS-22021W), 14 Sep 2011  
 Capt Anju Meel (NS-22022Y), 14 Sep 2011  
 Capt Anurita (NS-22023F), 14 Sep 2011  
 Capt Rajesh Kumari (NS-22024K), 14 Sep 2011  
 Capt Susee P (NS-22025M), 14 Sep 2011  
 Capt Navjeet Kaur (NS-22026P), 14 Sep 2011  
 Capt Manjari Kumari (NS-22027X), 14 Sep 2011  
 Capt J S Gladsin Jemi (NS-22028A), 14 Sep 2011  
 Capt Padmaja Bandaru (NS-22029H), 14 Sep 2011  
 Capt Ancy Jose (NS-22030X), 14 Sep 2011  
 Capt S Sumathi (NS-22031A), 14 Sep 2011  
 Capt Konakondla Priyadarsini (NS-22032H), 14 Sep 2011  
 Capt Revathy K (NS-22033L), 14 Sep 2011  
 Capt G Ahilambika (NS-22034N), 14 Sep 2011  
 Capt Melody Lalengmawii (NS-22035W), 14 Sep 2011  
 Capt Rekha A S (NS-22036Y), 14 Sep 2011  
 Capt Kiran Malik (NS-22037F), 14 Sep 2011  
 Capt Divyasree P S (NS-22038K), 14 Sep 2011  
 Capt K Subbulakshmi (NS-22039M), 14 Sep 2011  
 Capt Palla S P Devi (NS-22040F), 14 Sep 2011  
 Capt S Chitra (NS-22041K), 14 Sep 2011  
 Capt Prasita Nair (NS-22042M), 14 Sep 2011  
 Capt Thingom Bidya Devi (NS-22043P), 14 Sep 2011  
 Capt Amrita Chhattar (NS-22044X), 14 Sep 2011

Capt Renu Rathore (NS-22045A), 14 Sep 2011  
 Capt Sugunamma Appa (NS-22046H), 14 Sep 2011  
 Capt D H Angela (NS-22047L), 14 Sep 2011  
 Capt Divya S Kurup (NS-22048N), 14 Sep 2011  
 Capt Sweety Luke (NS-22049W), 14 Sep 2011  
 Capt Neha Kumari Sethi (NS-22050L), 14 Sep 2011  
 Capt Mary Angel A A (NS-22051N), 14 Sep 2011  
 Capt Rajyalakshmi Kakumani (NS-22052W), 14 Sep 2011  
 Capt P Binakka (NS-22053Y), 14 Sep 2011  
 Capt Rajeswari Karumanchi (NS-22054F), 14 Sep 2011  
 Capt R Ramya (NS-22055K), 14 Sep 2011  
 Capt Daljit Kaur (NS-22056M), 14 Sep 2011  
 Capt Liji Cherian (NS-22057P), 14 Sep 2011  
 Capt Ritu Moni Deka (NS-22058X), 14 Sep 2011  
 Capt Swarna Kumari Ogirala (NS-22059A), 14 Sep 2011  
 Capt T Gracy Abigail (NS-22060P), 14 Sep 2011  
 Capt Priyanka Priyadarshani Palata (NS-22061X), 14 Sep 2011  
 Capt A Sumathi (NS-22062A), 14 Sep 2011  
 Capt Yengkhom Anandi Chanu (NS-22063H), 14 Sep 2011  
 Capt D Ruthvinay Sheela (NS-22064L), 14 Sep 2011  
 Capt Waikhom Renuta Devi (NS-22065N), 14 Sep 2011  
 Capt Farah Anjum (NS-22066W), 14 Sep 2011  
 Capt Alka (NS-22067Y), 14 Sep 2011

J K GREWAL  
 Maj Gen  
 Addl DGMNS

#### ARMY BRANCH

No. 302, dated 6th July 2012—The President is pleased to make the following promotions under AI 37/78 as amended :—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY DENTAL CORPS

#### PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Col (TS)

Lt Col Arun Khurma (DR-10403N), 14 Oct 2011

Lt Col Tarun Kumar (DR-10408M), 29 Nov 2011

Sqn Ldr to be Wg Cdr (& equivalent)

Sqn Ldr Biju Varughese IAF (DR-10567K)(AF-25567),  
 26 Aug 2010

Priya Jeyraj (DR-10454F)(AF-22507), 15 Apr 2005

(DGN published on 05 Apr 2008 pertaining to this officer is hereby cancelled)

Surg Lt to Surg Lt Cdr

Kapil Tomar (DR-10625H), 06 Sep 2010

Capt to be Maj

Amrit Thapa (DR-10645W), 01 Aug 2011

Vishvaroop (DR-10652M), 15 Aug 2011

A Navin Kumar (DR-10646Y), 21 Sep 2011

The President is pleased to make the following promotions under AI 15/79 as amended :—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY DENTAL CORPS

#### SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Maj

Capt Anuroop Prakash (DS-12245H), 04 Nov 2011

Capt Priyanka Banga (DS-12246L), 10 Nov 2011

Capt Chinmoyee Rout (DS-12247N), 10 Nov 2011

Infant Arockiya Raj (DS-12369X), 04 Mar 2011

Pankaj Arora (DS-12235Y), 17 Sep 2011

Gaurav (DS-12237K), 22 Sep 2011

Sambhooti Arora (DS-12238M), 22 Sep 2011

VIMAL ARORA

Maj Gen

Addl DGDS

#### ARMY BRANCH

No. 303, dated 9th July 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION (SC)

Lt to be Capt

(SC-00595) Anil Dutt Joshi, AOC

(SC-00596) Prittam Singh, ASC

(SC-00597) Raman Kumar, Inf

(SC-00598) Dinesh Singh Thapa, Inf

(SC-00599) Anil Kumar, Sigs

(SC-00600) Ramkaji Gurung, Inf

(SC-00601) Rohtash Singh, AC

(SC-00602) Bhagyaraj, EME

(SC-00603) Pravin Kumar Vanjare, EME

(SC-00604) Vijay Gurung, Inf

(SC-00605) Sanjay Singh, Inf

(SC-00606) Laxman Singh Bisht, Engrs

(SC-00607) Manoj Kumar Gupta, Arty

(SC-00608) Anil Mane, Engrs

(SC-00609) Rethesh G V, AAD

(SC-00610) Vinu P, Arty

(SC-00611) Vimal Raj S, Arty

(SC-00612) Ajay Chauhan, Mech Inf

—12 Dec 2011

PRABHAT ROSS

Dy Dir

MS-8C

#### ARMY BRANCH

No. 304, dated 9th July 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### RECORDS THE MIR

To be Nb Sub Clk

Hav (Clk SD) Vaghela Sur Sinh Bhupat Sinh (No. 14918165N now JC-422103M), 02 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Brajesh Kumar Pal (No. 14916534F now JC-422104P), 04 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Sanjay Kumar Singh (No. 14917933X now JC-422105X), 05 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) V Santhana Muthu (No. 14918476F now JC-422106A), 01 Jan 2012

Hav (SKT) Udaya Bhanu M (No. 14918845M now JC-422107H), 01 Jan 2012

Hav (SKT) Sukha Ram (No. 14919842M now JC-422108L), 01 Jan 2012

Hav (SKT) Avnish Kumar Mishra (No. 14920806N now JC-422109N), 27 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

The President is pleased to make the following promotions :—

DEFENCE CIVILIAN

HQ ACC&S, AHMEDNAGAR

To be Private Secretary in Group 'B'

Sarjerao Ranganath Munfan (No. 1091787F), Steno Grade-I (Promoted to the post of Private Secretary in Group 'B' Gazetted Officer (Ministerial) wef 01 Mar 2009 in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/-)

REGULAR ARMY

ARMOURED CORPS

To be Nb Ris

Dfr Sree Kumar G (No. 15468729P now JC-245553M), 03 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Utpal Ghosh (No. 15463831N now JC-245644W), 10 Feb 2012

Dfr Ashish Kumar Singh (No. 15461598M now JC-245645Y), 10 Feb 2012

Dfr Vijay Kumar (No. 15464135H now JC-245654A), 07 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Bhanwar Singh Rathore (No. 15463280N now JC-245563W), 12 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Sukhwinder Singh (No. 15469690A now JC-245664K), 02 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Ramawtar Singh Rajput (No. 15465316A now JC-245665M), 01 Mar 2012

Dfr Swarn Singh (No. 15469685P now JC-245663F), 01 Mar 2012

Dfr Kamal Deo Prasad (No. 1099651M now JC-245699A), 15 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Pedada Govinda Rao (No. 1089739H now JC-245635P), 02 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Yashbir Chander (No. 1089390W now JC-245637A), 01 Apr 2012

Dfr Baldev Singh Thakur (No. 15461150M now JC-245603M), 01 Apr 2012

Dfr Bhupendra Singh Almia (No. 15464518P now JC-245752A), 01 Apr 2012

Dfr Sajjan Singh (No. 15463415K now JC-245609N), 02 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Ravinder Kumar (No. 15462265M now JC-245632F), 01 Apr 2012

Dfr Subrata Dutta (No. 15462392F now JC-245633K), 01 Apr 2012

Dfr Kamal Kumar Gupta (No. 15465461X now JC-245661W), 01 Apr 2012

Dfr Sheo Shanker (No. 15464063K now JC-245677F), 01 Apr 2012

Dfr Jayappamalli Nath Sharnappa (No. 15461189Y now JC-245705H), 03 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Vijay Shyam Singh (No. 15461939M now JC-245717X), 22 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 10 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Tarsem Singh (No. 15465553K now JC-245672H), 02 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Izaz Nabi (No. 15461874K now JC-245690L), 01 Apr 2012

Dfr Harish Chand Yadav (No. 15462434H now JC-245691N), 02 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Manoj Kumar B (No. 15462447A now JC-245692W), 02 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Dasrath Singh Shekhawat (No. 15461977H now JC-245707N), 01 Apr 2012

Dfr Kanwaljit Singh (No. 15463568N now JC-245710N), 01 Apr 2012

Dfr Protim Mukherjee (No. 15463053N now JC-245739W), 03 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Surjit Kumar (No. 15464171N now JC-245725W),  
02 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Bhola Nath (No. 15464666A now JC-245726Y),  
02 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Bhagwan Singh (No. 15466738X now JC-245729M),  
01 Apr 2012

Dfr Shailendra Kumar Azad (No. 15466739A now JC-  
245730F), 01 Apr 2012

Dfr Baljit Singh (No. 15462346M now JC-245734X),  
03 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 03 Mar 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Supriya Banerjee (No. 15463394Y now JC-245740L),  
04 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Sai Prasad Patra (No. 15466043P now JC-245745K),  
09 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 06 Mar 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Rakesh Kumar Singh (No. 15465872W now JC-  
245744F), 04 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 26 Feb 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Sushanta Kumar Das (No. 15466101N now JC-  
245746M), 04 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Ramanand (No. 15463183W now JC-245750P),  
03 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 06 Mar 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Baljinder Singh (No. 1098890P now JC-245756W), 09  
Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2012  
without effect on pay and allowances)

SUBHABARTA KARMAKAR  
Under Secy

#### AIR FORCE

No. 305, dated 10th July 2012—The President is pleased  
to make the following substantive promotions :—

#### INDIAN AIR FORCE

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

PERMANENT COMMISSION

AE(M) BRANCH

Jayaprakash (27940) wef 05 Jun 2008

TARUN KHARE

Wg Com

Jt Dir

Personnel Officer-3(D)

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 306, dated 10th July 2012—The President is pleased  
to make the following promotions :—

S B Kale, Accounts Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO  
with effect from 25 Apr 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9300—  
34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

T Jyothi to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on  
probation for two years in DRDO with effect from 23 Apr  
2012 (A/N) in the Pay Band of Rs. 9300—34,800/- (PB-2) and  
Grade Pay Rs. 4,600/-

T Sulochana, Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO  
with effect from 21 Nov 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9300—  
34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

Shyam P Akolkar, to be Hindi Officer, Gp 'A' (Gazetted)  
in DRDO with effect from 02 Apr 2012 (F/N) Pay Band of Rs.  
15,600—39,100/- (PB-3) and Grade Pay Rs. 5,400/-

P Ram Reddy to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on  
probation for two years in DRDO with effect from 27 Apr  
2012 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9300—34,800/- (PB-2) and  
Grade Pay Rs. 4,600/-

SI Soman Sekar to be Civilian Assistant Security Officer,  
Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with  
effect from 11 Apr 2012 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9300—  
34,800/- & Grade Pay Rs. 4,600/-

D A Srinivas to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on  
probation for two years in DRDO with effect from 24 Apr  
2012 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9300—34,800/- (PB-2) and  
Grade Pay Rs. 4,600/-

KN Mupid, Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO  
with effect from 21 Jan 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9300—  
34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

Simon K Verghese to be temporary Senior Admin Officer,  
Grade-II (Group 'A') on probation for one year in DRDO  
with effect from 02 Jan 2012 (F/N) in the Pay Band-3 of  
Rs. 15,600—39,100/- and Grade Rs. 5,400/-

J J Shinde, Private Secretary 'A', Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 02 Apr 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

S Raman, PS 'A', Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 02 Jan 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

S Jamuna Rani, Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Mar 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

Shaila K, Accounts Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 02 Apr 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

K S Ramakrishna, Accounts Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 03 Apr 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

Rakesh Jalani, Accounts Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 09 Apr 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

A V Inamdar, Private Secretary 'A', Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 02 Apr 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

K Bhanu, Accounts Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 03 Apr 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

Kasturi Roy, Private Secretary 'A', Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Mar 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

VP SINGH  
Dy Dir (Pers)

#### ARMY BRANCH

No. 307, dated 11th July 2012—The President is pleased to permit the undermentioned Officers to resign their commission from the Army Service wef dates noted against them earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons :—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

(IC-61539) Maj Ravi Navin, Inf, 19 Nov 2008 (AN)

(IC-67741) Maj Ravindra Singh, Engrs, 19 Dec 2011 (FN)

(IC-63324) Maj Gaurav Khare, Engrs, 14 Feb 2012 (AN)

VANDANA DUBE  
Dy Dir  
MS/PR

#### FINANCE DIVISION

No. 308, dated 11th July 2012—The President is pleased to retire Ramesh Kumar, Addl. FA (R) & JS, Ministry of

Defence (Finance) from Government Service with effect from 31 May 2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

RAVI KATYAL  
Asstt Financial Adviser (E)

#### ARMY BRANCH

No. 309, dated 12th July 2012—The President is pleased to permit the undermentioned Officers to resign from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons :—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

(IC-38402) Col Bhawani Singh, AC, 15 Sep 2006 (AN)

(IC-41627) Col (TS) Vinay Ashish John Singh, Engrs, 17 Dec 2011 (AN)

(IC-50678) Col Ravishankar Virnath Ghodake, Engrs, 29 Feb 2012 (AN)

(IC-43268) Col Dalal Sanjeev, Engrs, 08 Feb 2012 (AN)

(IC-49514) Col Ajay Kumar Arora, Sigs, 11 Feb 2012 (AN)

(IC-47605) Col Sanjay Julka, Arty, 28 Jan 2012 (AN)

(IC-45313) Col (TS) Amarbir Singh Chahal, AC, 22 Jan 2012 (AN)

(IC-45294) Col (TS) Anand Sontake, AC, 14 Feb 2012 (AN)

The President is pleased to permit the undermentioned Officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons and transfer to Regular Reserve of Officers (Class X), under SAI 10/S/63 as amended :—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

(IC-52803) Maj Ajit Singh, Inf, 20 May 2007 (AN)

(IC-49482) Lt Col Ravi Radhakrishnan, Inf, 17 Mar 2007 (AN)

(IC-45589) Lt Col Rajesh Seth, Inf, 21 Aug 2007 (AN)

(IC-43805) Lt Col Atul Kochhar, Inf, 01 Jul 2008 (AN)

(IC-45182) Lt Col Suresh Chander Mann, Inf, 09 Feb 2008 (AN)

(IC-45682) Lt Col Saugato Das, Mech Inf, 15 Jan 2008 (AN)

(IC-50477) Lt Col Kulwant Kataria, SM, Inf, 18 Jan 2012 (AN)

(IC-47174) Lt Col Nikunj Goel, Mech Inf, 18 Jan 2012 (AN)

(IC-47736) Lt Col Rajeev Misra, Arty, 08 Feb 2012 (AN)

(IC-50166) Lt Col NS Bahchhal, EME, 08 Feb 2012 (AN)

(IC-44148) Lt Col Sandeep Sabharwal, EME, 14 Feb 2012 (AN)

(IC-52918) Lt Col Vinod CH, Arty, 01 Mar 2012 (AN)

(IC-46460) Lt Col Mitul Goyal, Arty, 10 Mar 2012 (AN)

(IC-50576) Lt Col Neeraj Sharma, EME, 09 Mar 2012 (AN)

VANDANA DUBE  
Dy Dir  
MS/PR

#### ARMY BRANCH

No. 310, dated 12th July 2012—The President is pleased to retire the undermentioned Officers on attaining the age of superannuation as indicated against him :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### ARMY MEDICAL CORPS

Gp Capt (TS) RK Bhutani (MR-03756L) (AF-13757B), PC, 30 Apr 2007

Gp Capt (TS) MG Ajmani (MR-04468L) (AF-13756T), PC, 31 Jan 2007

YASH PANDE  
Brig  
Dy DGAFMS (HR)

#### ARMY BRANCH

No. 311, dated 13th July 2012—The President is pleased to dismiss the undermentioned Officer from service with effect from the date indicated against him :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### (ARMY MEDICAL CORPS)

(MR-03527A), Brig Anil Kayastha, SM, PC, 30 Jul 2011 (AN)

YASH PANDE  
Brig  
Dy DGAFMS (HR)

#### ARMY BRANCH

No. 312, dated 13th July 2012—The President is pleased to terminate the services of the following officer from the Army Service by way of dismissal wef date mentioned against him under Sec 19 of Army Act, 1950 :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

(IC-50123) Lt Kis Randhawa, AOC, 15 Feb 2007

VANDANA DUBE  
Dy Dir  
MS/PR

#### (ARMY BRANCH)

No. 313, dated 16th July 2012—The President is pleased to make the following appointments :—

#### CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 617 published in the Gazette of India, dated 22 Dec 2007 under the heading "Grant of Permanent Commission (Special List) QTA-05" and sub-heading "to be Lt" the following amendments are made against Name :—

For (14408755W) Hav Shirsath Machindra Radhakrisan (SL-4925N), Arty, Teo (Arty)

Read (14408755W) Hav Shirsath Machindra Radhakrisan (SL-4925N), Arty, Teo (Arty)

RAHUL SANGWAN  
Lt Col  
AMS-8B

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012